

# पावर्ड सपोर्ट लॉन्गवाल से लैस हुई ईसीएल की झांझरा परियोजना

## देश का पहला मैन राइडिंग वाहन 'ड्रिफ्ट रनर'भी झांझरा में आया

ईसीएल की उपलब्धियों में एक और महत्वपूर्ण कड़ी जोड़ते हुए विगत 18.11.2015 को झांझरा क्षेत्र में पावर्ड सपोर्ट लॉन्गवाल का उदघाटन कोल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष श्री सुतीर्थ भट्टाचार्य द्वारा किया गया। साथ ही, श्री भट्टाचार्य ने देश के पहले मैन राइडिंग वाहन 'ड्रिफ्ट रनर' का भी लोकार्पण किया। इससे ईसीएल के इतिहास में एक और स्वर्णिम अध्याय जुड़ गया है। उल्लेखनीय है कि झांझरा परियोजना में पहले से ही दो कंटीन्यूअस माइनर चल रहे हैं एवं इन दोनों अत्याधुनिक तकनीकों के आगमन से झांझरा क्षेत्र देश में कोयला उद्योग के लिए एक आदर्श बन गया है। इस अवसर पर, कोल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष के अतिरिक्त ईसीएल के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक श्री चन्दन कुमार दे, निदेशक (कार्मिक) श्री के. एस. पात्र, निदेशक (तकनीकी) योजना-परियोजना श्री बी. आर. रेड्डी, निदेशक (वित्त) श्री ए. एम. मराठे सहित विभिन्न क्षेत्रीय महाप्रबंधक, कर्मचारी/अधिकारी सहित यूनियन के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे।

उल्लेखनीय है कि पावर्ड सपोर्ट लॉन्गवाल की स्थापना के पश्चात इसी वित्त-वर्ष की अंतिम तिमाही में इससे कोयला-उत्पादन का कार्य भी शुरू हो जाएगा। अपनी पूरी क्षमता प्राप्त कर लेने के पश्चात इससे झांझरा क्षेत्र की वार्षिक कोयला उत्पादन क्षमता में 1.7 मिलियन टन की वृद्धि होगी एवं झांझरा क्षेत्र की कुल उत्पादन क्षमता 3.5 मिलियन टन हो जायेगी जो देश की किसी भी भूमिगत खदान परियोजना से कहीं अधिक होगी। ऐसे में इसका कुल उत्पादन कोल इंडिया लिमिटेड की कुछ अनुषंगी कंपनियों के कुल भूमिगत उत्पादन से भी अधिक होगा। यह भी ईसीएल के लिए गर्व का विषय है कि खनन श्रमिकों के आवागमन के लिए 'ड्रिफ्ट रनर' जैसा वाहन देश में पहली बार ईसीएल में ही प्रयोग किया जा रहा है। इन आधुनिकतम तकनीकों के उदघाटन के पश्चात अध्यक्ष, कोल इंडिया लिमिटेड ने अधिक से अधिक उत्पादन की उम्मीद जताई।

